

# निस्कार्ट फादर एग्नल, वैशाली

हिंदी अभ्यास पत्रिका -२०१७-१८

माह - नवम्बर, कक्षा - 8

**प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।**

राष्ट्रीय एकता एक प्रबल शक्ति है | यह वीरता और बलिदान के कार्यों को बढ़ावा देती है और जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है | यह देशवासियों को उन्नति के पथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है | संसार के लोगों ने राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित होकर अपूर्व उन्नति की है | राष्ट्रीय एकता जनता को व्यक्ति और समाज दोनों रूपों से प्रोत्साहन और प्रेरणा देती है | जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन आरंभ किया तो समूचा राष्ट्र एक भावना से गांधी जी के साथ जो लिया | एकता और संगठन की भावना जागृत करने के लिए उन्होंने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित अनेक रचनात्मक कार्यक्रम आरंभ किए | आजादी के बाद समस्त भारत भावनात्मक एकता के सूत्र में बंधा है | चीनी अतिक्रमण इसका जीता-जगता प्रमाण प्रस्तुत करता है | उस कठिन समय में भारतवासियों के भावनात्मक एकता एकदम व्यावहारिक एकता में पतिवर्तित हो गई और आक्रांत चीन की चुनौती का पूरे राष्ट्र ने ललकार के साथ उत्तर दिया | इस समय हमारे देश को उसी प्रकार की भावनात्मक एकता की आवश्यकता है |

- (क) राष्ट्रीय एकता देशवासियों को क्या प्रेरणा देती है ?
- (ख) गांधी जी ने किस भावना को जागृत करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम आरंभ किए ?
- (ग) किसके बल पर भारतवासियों ने चीनी आक्रमण का सामना किया ?
- (घ) वर्मान समय में देश को किस प्रकार की एकता की आवश्यकता है ?
- (ङ) (i) गद्यांश में से एक भाववाचक संज्ञा छाँटकर लिखिए ?
- (ii) गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए |

काव्यांश

**प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।**

चौड़ी सड़क गली पतली थी , दिन का समय घनी बदली थी |  
रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था |  
उसे बता यह दिया गया, उसकी हत्या होगी |  
धीरे-धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले |  
फिर रह गया, सड़क पर सब थे  
सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी |  
खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रख कर |  
सधे सन्न रख करके आए , लोग सिमट कर आँख गड़ाए |  
लोग देखने उसको , जिसकी तय था हत्या होगी |

निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा |  
हाथ तौलकर चाकू मारा , छूटा लोहू का फव्वारा |  
खा नहीं था उसने आखिर , उसकी हत्या होगी |

- (क) रामदास की उदासी का क्या कारण था ?  
(ख) रामदास अपने साथ किसी को लेते-लेते क्यों रुक गया ?  
(ग) सड़क पर हत्या होने का क्या मतलब है ?  
(घ) जनता के सामने एक आम आदमी की हत्या किस बात का सूचक है ?  
(ङ) काव्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए |

**प्रश्न - 3 दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए |**

**i. जीवन में खेल-कूद का महत्त्व**

संकेत बिंदु - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क , खेल से समस्त गुणों का विकास , स्वस्थ मनोरंजन का अनुपम साधन |

**ii. बढ़ता तनाव - एक समस्या**

संकेत बिंदु - तनाव की प्रकृति , कारण , दूर करने की उपाय |

**iii. जब आवे संतोष धन, सब धन धुरि समान**

संकेत बिंदु - अभिप्राय , सुख-शांति का मूलमंत्र , असंतोष से हानियाँ |

**प्रश्न 4 - दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन कीजिए |**



## जहाँ पहिया है ---

- पुदुकोट्टई की महिलाओं ने अपनी विरोध प्रदर्शन करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया?
- पुदुकोट्टई की गणना सीसे जिलो में की जाती है ? वहाँ की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में अपनाया |
- फातिमा कौन थी
- वह साइकिल क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी |
- जमीला माध्यमिक सिखने वाली महिलाओं के प्रति पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होती थी ?
- शुरू में साइकिल सीखने वाली महिलाओं के प्रति पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होती थी ?
- कुदिमि कहां काम करती है लेखक ने उसे क्या नया काम करते देखा |
- लेखक को ग्रामीण महिलाओं ने अपनी उपलब्धि को किसके समान बताया ?
- साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं की आजादी तो बढी है साथ ही दूसरे पर निर्भरता भी कम हुई है स्पष्ट कीजिए ?
- उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमे वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं |आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है?

## भगवान के डाकिये ---

- काव्यांश में डाकिये कौन हैं ?
- इनकी लाई चिट्ठियों में क्या सन्देश रहता होगा | अपने अनुमान से लिखें|
- इस काव्यांश में धरती क्या काम करती हुई चित्रित की गई है |
- प्रस्तुत कविता क्या संदेश देती है |
- कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया हां ? स्पष्ट कीजिए |
- एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है - कथन का भाव स्पष्ट कीजिए |
- पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान-प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं |
- हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है ? इस विषय पर दस वाक्य लिखिए |
- भगवान के डाकिए किन्हे कहा गया है और क्यों ?
- पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों का मनुष्य क्या करते हैं ?
- भगवान के डाकिए कविता से आपको क्या सन्देश मिलता है ?

## सूर दास के पद ---

- कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं
- माता यशोदा ने कृष्ण से क्या बताया था ।
- गोपी यशोदा के पास क्यों आई थी ।
- बालक कृष्ण किस लोभ की कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए ?
- श्रीकृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या-क्या सोच रहे हैं ।
- दूध की तुलना में श्रीकृष्ण माखन और रोटी अधिक पसंद करते थे ।
- मक्खन खाते समय श्रीकृष्ण थोड़ा सा मक्खन क्यों बिखेर देते हैं ?
- दोनों पद में से आपको कौन-सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों ?
- श्रीकृष्ण गोपियों का माखन चुरा-चुराकर खाते थे इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है । इसके लिए शब्द दीजिए ।
- श्रीकृष्ण के पाँच पर्यायवाची शब्द लिखिए ।
- बालक श्रीकृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं ?